



Mrs Divya kankani

02 Aug 1997

03:10 AM

Kathmandu

Model: Web-MyKundli

Order No: 119975501

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 1-02/08/1997
दिन _____: शुक्र-शनिवार
जन्म समय _____: 03:10:00 घंटे
इष्ट _____: 54:13:05 घटी
स्थान _____: Kathmandu
देश _____: Nepal

अक्षांश _____: 27:05:00 उत्तर
रेखांश _____: 85:04:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 86:15:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:04:44 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 03:05:16 घंटे
वेलान्तर _____: -00:06:19 घंटे
साम्पातिक काल _____: 23:47:21 घंटे
सूर्योदय _____: 05:28:45 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:52:52 घंटे
दिनमान _____: 13:24:07 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: वर्षा
सूर्य के अंश _____: 15:49:16 कर्क
लग्न के अंश _____: 14:52:33 मिथुन

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मिथुन - बुध
राशि-स्वामी _____: मिथुन - बुध
नक्षत्र-चरण _____: पुनर्वसु - 3
नक्षत्र स्वामी _____: गुरु
योग _____: वज्र
करण _____: शकुनि
गण _____: देव
योनि _____: मार्जार
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: शूद्र
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मेष
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: वायु
जन्म नामाक्षर _____: हा-हर्षा
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: स्वर्ण - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: सिंह

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1919	श्रावण	11
पंजाबी	संवत : 2054	श्रावण	18
बंगाली	सन् : 1404	श्रावण	17
तमिल	संवत : 2054	आदी	18
केरल	कोल्लम : 1172	कर्कदम	17
नेपाली	संवत : 2054	श्रावण	18
चैत्रादि	संवत : 2054	श्रावण	कृष्ण 14
कार्तिकादि	संवत : 2054	आषाढ़	कृष्ण 14

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 13
तिथि समाप्ति काल _____ : 11:01:18
जन्म तिथि _____ : 14
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : आर्द्रा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 08:45:15 घंटे
जन्म योग _____ : पुनर्वसु
सूर्योदय कालीन योग _____ : हर्षण
योग समाप्ति काल _____ : 11:34:48 घंटे
जन्म योग _____ : वज्र
सूर्योदय कालीन करण _____ : वणिज
करण समाप्ति काल _____ : 11:01:18 घंटे
जन्म करण _____ : शकुनि
भयात _____ : 46:01:54
भभोग _____ : 64:40:40
भोग्य दशा काल _____ : गुरु 4 वर्ष 7 मा 1 दि

घात चक्र


मास _____ : आषाढ़
तिथि _____ : 2-7-12
दिन _____ : सोमवार
नक्षत्र _____ : स्वाति
योग _____ : परिघ
करण _____ : कौलव
प्रहर _____ : 3
वर्ग _____ : श्वान
लग्न _____ : कर्क
सूर्य _____ : मीन
चन्द्र _____ : धनु
मंगल _____ : मेष
बुध _____ : मकर
गुरु _____ : वृष
शुक्र _____ : मिथुन
शनि _____ : कुम्भ
राहु _____ : कर्क

MANWENDRA SHARMA


Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

श		ल चं
के		सू
गु		रा बु शु
		मं

लग्न कुंडली

चं ल	श	के
सू		गु
शु बु रा	मं	

विंशोत्तरी
गुरु 4वर्ष 7मा 1दि
गुरु

02/08/1997

05/03/2106

गुरु	04/03/2002
शनि	04/03/2021
बुध	04/03/2038
केतु	04/03/2045
शुक्र	04/03/2065
सूर्य	04/03/2071
चन्द्र	04/03/2081
मंगल	03/03/2088
राहु	05/03/2106

योगिनी
पिंगला 0वर्ष 6मा 26दि
संकटा

27/02/2023

27/02/2031

संकटा	08/12/2024
मंगला	27/02/2025
पिंगला	08/08/2025
धान्या	09/04/2026
भ्रामरी	27/02/2027
भद्रिका	08/04/2028
उल्का	08/08/2029
सिद्धा	27/02/2031

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मिथु	14:52:33	320:29:13	आर्द्रा	3	6	बुध	राहु	केतु	---
सूर्य			कर्क	15:49:16	00:57:26	पुष्य	4	8	चंद्र	शनि	गुरु	मित्र राशि
चंद्र			मिथु	29:30:41	12:19:34	पुनर्वसु	3	7	बुध	गुरु	चंद्र	मित्र राशि
मंगल			कन्या	28:41:59	00:35:04	चित्रा	2	14	बुध	मंगल	शनि	शत्रु राशि
बुध			सिंह	13:01:04	01:02:47	मघा	4	10	सूर्य	केतु	बुध	मित्र राशि
गुरु	व		मक	24:10:18	00:07:40	धनिष्ठा	1	23	शनि	मंगल	राहु	नीच राशि
शुक्र			सिंह	17:24:24	01:12:00	पूर्वाषाढा	2	11	सूर्य	शुक्र	मंगल	शत्रु राशि
शनि	व		मीन	26:32:16	00:00:01	रेवती	3	27	गुरु	बुध	गुरु	सम राशि
राहु	व		सिंह	26:31:50	00:06:47	पूर्वाषाढा	4	11	सूर्य	शुक्र	केतु	शत्रु राशि
केतु	व		कुंभ	26:31:50	00:06:47	पूर्वाभाद्रपद	2	25	शनि	गुरु	केतु	शत्रु राशि
हर्ष	व		मक	12:45:02	00:02:24	श्रवण	1	22	शनि	चंद्र	राहु	---
नेप	व		मक	04:26:02	00:01:35	उत्तराषाढा	3	21	शनि	सूर्य	शनि	---
प्लूटो	व		वृश्चि	09:02:29	00:00:23	अनुराधा	2	17	मंगल	शनि	शुक्र	---
दशम भाव			मीन	02:43:38	--	पूर्वाभाद्रपद	--	25	गुरु	गुरु	राहु	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:49:23


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	वृष 27:51:03	मिथुन 14:52:33
2	मिथुन 27:51:03	कर्क 10:49:34
3	कर्क 23:48:05	सिंह 06:46:36
4	सिंह 19:45:07	कन्या 02:43:38
5	कन्या 19:45:07	तुला 06:46:36
6	तुला 23:48:05	वृश्चिक 10:49:34
7	वृश्चिक 27:51:03	धनु 14:52:33
8	धनु 27:51:03	मकर 10:49:34
9	मकर 23:48:05	कुम्भ 06:46:36
10	कुम्भ 19:45:07	मीन 02:43:38
11	मीन 19:45:07	मेष 06:46:36
12	मेष 23:48:05	वृष 10:49:34


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मिथुन	14:52:33
2	कर्क	07:50:05
3	सिंह	02:58:33
4	कन्या	02:43:38
5	तुला	07:11:44
6	वृश्चिक	12:34:25
7	धनु	14:52:33
8	मकर	07:50:05
9	कुम्भ	02:58:33
10	मीन	02:43:38
11	मेष	07:11:44
12	वृष	12:34:25


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति
विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा
पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan

9851036217, 9801136217

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : गुरु 4 वर्ष 7 मास 1 दिन

गुरु 16 वर्ष 02/08/1997 04/03/2002	शनि 19 वर्ष 04/03/2002 04/03/2021	बुध 17 वर्ष 04/03/2021 04/03/2038	केतु 7 वर्ष 04/03/2038 04/03/2045	शुक्र 20 वर्ष 04/03/2045 04/03/2065
00/00/0000	शनि 07/03/2005	बुध 31/07/2023	केतु 31/07/2038	शुक्र 03/07/2048
00/00/0000	बुध 15/11/2007	केतु 27/07/2024	शुक्र 30/09/2039	सूर्य 03/07/2049
00/00/0000	केतु 24/12/2008	शुक्र 28/05/2027	सूर्य 05/02/2040	चंद्र 04/03/2051
00/00/0000	शुक्र 23/02/2012	सूर्य 03/04/2028	चंद्र 05/09/2040	मंगल 03/05/2052
00/00/0000	सूर्य 04/02/2013	चंद्र 02/09/2029	मंगल 01/02/2041	राहु 04/05/2055
02/08/1997	चंद्र 05/09/2014	मंगल 30/08/2030	राहु 20/02/2042	गुरु 02/01/2058
चंद्र 02/11/1998	मंगल 15/10/2015	राहु 19/03/2033	गुरु 26/01/2043	शनि 04/03/2061
मंगल 09/10/1999	राहु 21/08/2018	गुरु 25/06/2035	शनि 06/03/2044	बुध 02/01/2064
राहु 04/03/2002	गुरु 04/03/2021	शनि 04/03/2038	बुध 04/03/2045	केतु 04/03/2065
सूर्य 6 वर्ष 04/03/2065 04/03/2071	चंद्र 10 वर्ष 04/03/2071 04/03/2081	मंगल 7 वर्ष 04/03/2081 03/03/2088	राहु 18 वर्ष 03/03/2088 05/03/2106	गुरु 16 वर्ष 05/03/2106 00/00/0000
सूर्य 21/06/2065	चंद्र 02/01/2072	मंगल 31/07/2081	राहु 14/11/2090	गुरु 22/04/2108
चंद्र 21/12/2065	मंगल 02/08/2072	राहु 18/08/2082	गुरु 09/04/2093	शनि 03/11/2110
मंगल 28/04/2066	राहु 01/02/2074	गुरु 25/07/2083	शनि 14/02/2096	बुध 08/02/2113
राहु 22/03/2067	गुरु 03/06/2075	शनि 02/09/2084	बुध 02/09/2098	केतु 15/01/2114
गुरु 08/01/2068	शनि 02/01/2077	बुध 30/08/2085	केतु 21/09/2099	शुक्र 15/09/2116
शनि 20/12/2068	बुध 03/06/2078	केतु 26/01/2086	शुक्र 22/09/2102	सूर्य 04/07/2117
बुध 27/10/2069	केतु 02/01/2079	शुक्र 28/03/2087	सूर्य 16/08/2103	चंद्र 03/08/2117
केतु 04/03/2070	शुक्र 02/09/2080	सूर्य 03/08/2087	चंद्र 14/02/2105	00/00/0000
शुक्र 04/03/2071	सूर्य 04/03/2081	चंद्र 03/03/2088	मंगल 05/03/2106	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशों के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल गुरु 4 वर्ष 7 मा 11 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

बुध - शुक्र 27/07/2024 28/05/2027	बुध - सूर्य 28/05/2027 03/04/2028	बुध - चंद्र 03/04/2028 02/09/2029	बुध - मंगल 02/09/2029 30/08/2030	बुध - राहु 30/08/2030 19/03/2033
शुक्र 16/01/2025 सूर्य 09/03/2025 चंद्र 03/06/2025 मंगल 02/08/2025 राहु 04/01/2026 गुरु 22/05/2026 शनि 02/11/2026 बुध 29/03/2027 केतु 28/05/2027	सूर्य 13/06/2027 चंद्र 09/07/2027 मंगल 27/07/2027 राहु 11/09/2027 गुरु 23/10/2027 शनि 11/12/2027 बुध 24/01/2028 केतु 11/02/2028 शुक्र 03/04/2028	चंद्र 16/05/2028 मंगल 15/06/2028 राहु 01/09/2028 गुरु 09/11/2028 शनि 30/01/2029 बुध 13/04/2029 केतु 13/05/2029 शुक्र 07/08/2029 सूर्य 02/09/2029	मंगल 23/09/2029 राहु 17/11/2029 गुरु 04/01/2030 शनि 02/03/2030 बुध 23/04/2030 केतु 14/05/2030 शुक्र 13/07/2030 सूर्य 31/07/2030 चंद्र 30/08/2030	राहु 17/01/2031 गुरु 21/05/2031 शनि 16/10/2031 बुध 25/02/2032 केतु 19/04/2032 शुक्र 21/09/2032 सूर्य 07/11/2032 चंद्र 23/01/2033 मंगल 19/03/2033
बुध - गुरु 19/03/2033 25/06/2035	बुध - शनि 25/06/2035 04/03/2038	केतु - केतु 04/03/2038 31/07/2038	केतु - शुक्र 31/07/2038 30/09/2039	केतु - सूर्य 30/09/2039 05/02/2040
गुरु 07/07/2033 शनि 15/11/2033 बुध 12/03/2034 केतु 30/04/2034 शुक्र 15/09/2034 सूर्य 26/10/2034 चंद्र 03/01/2035 मंगल 20/02/2035 राहु 25/06/2035	शनि 27/11/2035 बुध 15/04/2036 केतु 11/06/2036 शुक्र 22/11/2036 सूर्य 10/01/2037 चंद्र 02/04/2037 मंगल 29/05/2037 राहु 24/10/2037 गुरु 04/03/2038	केतु 12/03/2038 शुक्र 06/04/2038 सूर्य 14/04/2038 चंद्र 26/04/2038 मंगल 05/05/2038 राहु 27/05/2038 गुरु 16/06/2038 शनि 10/07/2038 बुध 31/07/2038	शुक्र 10/10/2038 सूर्य 31/10/2038 चंद्र 06/12/2038 मंगल 31/12/2038 राहु 05/03/2039 गुरु 30/04/2039 शनि 07/07/2039 बुध 05/09/2039 केतु 30/09/2039	सूर्य 06/10/2039 चंद्र 17/10/2039 मंगल 25/10/2039 राहु 13/11/2039 गुरु 30/11/2039 शनि 20/12/2039 बुध 07/01/2040 केतु 15/01/2040 शुक्र 05/02/2040
केतु - चंद्र 05/02/2040 05/09/2040	केतु - मंगल 05/09/2040 01/02/2041	केतु - राहु 01/02/2041 20/02/2042	केतु - गुरु 20/02/2042 26/01/2043	केतु - शनि 26/01/2043 06/03/2044
चंद्र 23/02/2040 मंगल 06/03/2040 राहु 07/04/2040 गुरु 05/05/2040 शनि 08/06/2040 बुध 08/07/2040 केतु 21/07/2040 शुक्र 25/08/2040 सूर्य 05/09/2040	मंगल 14/09/2040 राहु 06/10/2040 गुरु 26/10/2040 शनि 19/11/2040 बुध 10/12/2040 केतु 18/12/2040 शुक्र 12/01/2041 सूर्य 20/01/2041 चंद्र 01/02/2041	राहु 31/03/2041 गुरु 21/05/2041 शनि 20/07/2041 बुध 13/09/2041 केतु 05/10/2041 शुक्र 08/12/2041 सूर्य 27/12/2041 चंद्र 28/01/2042 मंगल 20/02/2042	गुरु 06/04/2042 शनि 30/05/2042 बुध 17/07/2042 केतु 06/08/2042 शुक्र 02/10/2042 सूर्य 19/10/2042 चंद्र 16/11/2042 मंगल 06/12/2042 राहु 26/01/2043	शनि 01/04/2043 बुध 28/05/2043 केतु 21/06/2043 शुक्र 27/08/2043 सूर्य 16/09/2043 चंद्र 20/10/2043 मंगल 13/11/2043 राहु 12/01/2044 गुरु 06/03/2044

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	2
भाग्यांक	9
मित्र अंक	2, 7, 8, 9
शत्रु अंक	4, 5, 6
शुभ वर्ष	20, 29, 38, 47, 56
शुभ दिन	बुध, शुक्र, शनि
शुभ ग्रह	बुध, शुक्र, शनि
मित्र राशि	कन्या, कुम्भ
मित्र लग्न	कन्या, कुम्भ, मेष
अनुकूल देवता	गणेश
शुभ रत्न	पन्ना
शुभ उपरत्न	संगपन्ना, मरगज
भाग्य रत्न	नीलम
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	हरित
शुभ दिशा	उत्तर
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	हाथी दाँत, कपूर, फल
दान अन्न	मूँग
दान द्रव्य	घी

MANWENDRA SHARMA


Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पन्ना	बुध	97%	पराक्रम, स्वास्थ्य, सुख
मोती	चंद्र	73%	स्वास्थ्य, धन
लहसुनिया	केतु	73%	भाग्योदय, व्यावसायिक उन्नति
नीलम	शनि	69%	व्यावसायिक उन्नति, दुर्घटना से बचाव, भाग्योदय
हीरा	शुक्र	64%	पराक्रम, कम खर्च, सन्तति सुख
गोमेद	राहु	56%	पराक्रम, धन
माणिक्य	सूर्य	55%	धन, पराक्रम
मूंगा	मंगल	28%	ग्रह कलेश, हानि, शत्रु व रोग
पुखराज	गुरु	0%	दुर्घटना, दाम्पत्य कष्ट, व्यावसायिक हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
गुरु	04/03/2002	61%	80%	41%	84%	25%	52%	69%	56%	73%
शनि	04/03/2021	34%	61%	3%	100%	0%	70%	81%	62%	61%
बुध	04/03/2038	61%	61%	28%	100%	0%	70%	69%	56%	73%
केतु	04/03/2045	34%	61%	41%	97%	0%	70%	56%	38%	86%
शुक्र	04/03/2065	34%	61%	28%	100%	0%	77%	75%	62%	80%
सूर्य	04/03/2071	67%	80%	41%	97%	12%	52%	56%	38%	61%
चंद्र	04/03/2081	61%	86%	28%	100%	0%	64%	69%	38%	61%
मंगल	03/03/2088	61%	80%	52%	84%	12%	64%	69%	38%	80%
राहु	05/03/2106	34%	61%	3%	97%	0%	70%	75%	69%	61%

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	07/06/2000-23/07/2002 08/01/2003-07/04/2003	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	23/07/2002-08/01/2003 07/04/2003-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/01/2020-29/04/2022 12/07/2022-17/01/2023	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	08/08/2029-05/10/2029 17/04/2030-31/05/2032	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/03/2049-10/07/2049 04/12/2049-25/02/2052	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	27/05/2059-11/07/2061 13/02/2062-07/03/2062	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	15/01/2079-12/04/2081 03/08/2081-07/01/2082	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया

फल

सम
सम
अशुभ
सम
सम

क्षेत्र

कम खर्च
स्वास्थ्य
धन
सुख
दुर्घटना से बचाव

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में है। अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं। इसके प्रभाव से जीवन में आपको भौतिक सुख संसाधनों तथा अन्य जायदाद आदि की प्राप्ति परिश्रम से होगी लेकिन शारीरिक रूप से आप स्वस्थ तथा प्रसन्न रहेंगी। स्वभाव में यदा कदा उग्रता का भाव उत्पन्न हो सकता है लेकिन दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मांगलिक दोष के प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब हो सकता है तथा वैवाहिक वार्ताओं में भी व्यवधान आ सकते हैं लेकिन अंततोगत्वा इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपके पति का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा आपसी संबंधों में कुछेक क्षणों को छोड़कर मधुरता बनी रहेगी।

चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति के फलस्वरूप आपको सांसारिक सुख संसाधन परिश्रम पूर्वक प्राप्त होंगे साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि के प्रभाव से पति के स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा। स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा तथा दाम्पत्य जीवन का आप सुख पूर्वक उपभोग करने में समर्थ रहेंगी। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप आप परिश्रम एवं पराक्रम से ही उच्च पद तथा सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करेंगी। एकादश भाव पर दृष्टि के प्रभाव से आपके आय साधनों में सामान्यतया वृद्धि होगी। यदा कदा न्यूनता का भाव भी रहेगा लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं रहेगा तथा आपका सामान्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा।

अतः मंगल के शुभ फलों में अधिक अनुकूलता के लिए आपको किसी मांगलिक युवक से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष भंग हो जाए। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इसके भंग होने से आप सर्वत्र सफलता के

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

मार्ग पर अग्रसर होंगी तथा सांसारिक सुख संसाधन ऐश्वर्य तथा वैभव की इच्छित प्राप्ति होगी।
दाम्पत्य संबंधों में भी मधुरता का भाव विद्यमान रहेगा।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4. शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरांत पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियाँ अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ।।

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुंडली में शुक्र के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुंडली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें । 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें ।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatmik Jyotish Sansthan

9851036217, 9801136217

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक भाग्यवान्, सम्पत्तिवान्, मुखरोगी, झगड़ालू, नेत्रकर्णदन्तरोगी, राजभीरु, घरेलू जीवन दुःखी एवं स्त्री के लिए कुटुम्बियों से झगड़ने वाला होता है।

कर्कराशि में रवि हो तो जातक कीर्तिमान, लब्धप्रतिष्ठ, कार्यपरायण, चंचल, साम्यवादी, कफरोगी, इतिहासज्ञ एवं परोपकारी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वितीय भाव में स्थित है। अतः आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं उनकी आयु भी दीर्घ होगी। आपको वे सर्वदा विशेष स्नेह प्रदान करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण कार्यों में आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही आपको उनसे आर्थिक सहयोग भी प्रायः मिलता रहेगा।

आप भी उनका पूर्ण हार्दिक सम्मान करेंगी तथा उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर मधुर संबंध रहेंगे लेकिन यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में अल्प तनाव दृष्टिगोचर होगा परन्तु यह अल्प समय के लिए ही रहेगा कुछ समय उपरान्त स्वतः सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही सुख दुःख में आप उनकी आर्थिक तथा अन्य रूप से पूर्ण सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी।

चन्द्र

लग्न (प्रथम) में चन्द्रमा हो तो जातक बलवान्, सुखी, स्थूलशरीर, गान वाद्य प्रिय, ऐश्वर्यशाली, व्यवसायी, उदार, धनी एवं विद्वान होता है।

मिथुन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक विद्वान, अध्ययनशील, सुन्दर, रतिकुशल, भोगी, मर्मज्ञ, नेत्र चिकित्सक, अच्छा वक्ता एवं अच्छा अन्तर्ज्ञान वाला होता है।

आप के जन्म समय में चन्द्रमा लग्न में विद्यमान हैं। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं आपके ग्रहों के शुभप्रभाव से उन्हें लम्बी आयु की प्राप्ति होगी। आपके जन्म के उपरान्त वे धन सम्पत्ति को भी प्राप्त करने में सफल होगी। आपके प्रति उनका पूर्ण स्नेह एवं वात्सल्य रहेगा तथा जीवन के सभी शुभ एवं महत्व पूर्ण कार्यों में आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। इसके साथ ही आप के परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं मतभेदों की प्रायः अल्पता ही रहेगी।

आप भी उनके प्रति मन में पूर्ण सम्मान तथा आदर का भाव रखेंगी तथा उनकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रायः तत्पर रहेंगी। इससे आप लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास आदि में वृद्धि होगी जिससे आजीवन मधुर संबंध बने रहेंगे। इससे आप परस्पर सहयोग भाव से जीवन में प्रसन्नता की प्राप्ति करेंगी।

मंगल

चतुर्थभाव में मंगल हो तो जातक सन्ततिवान्, मातृसुखहीन, वाहनसुख, प्रवासी, अग्निभययुक्त, अल्पमृत्यु चा अपमृत्यु प्राप्त करने वाला, कृषक, बन्धुविरोधी एवं लाभ युक्त होता है।

कन्या राशि में मंगल हो तो जातक सुखी, शिल्पज्ञ, पापभीरु, लोकमान्य एवं व्यवहार कुशल होता है।

आपकी जन्म कुण्डली में मंगल की स्थिति चौथे भाव में है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में स्नेह एवं सम्मान का भाव रहेगा तथा सुख दुःख में आपको हमेशा उनसे वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। साथ ही व्यापार एवं आजीविका संबंधी कार्यों में भी वे आपकी पूर्ण सहायता करेंगे।

आप भी उनको मन से सम्मान एवं स्नेह प्रदान करेंगी तथा सुख दुःख में सर्वदा उनके साथ रहेंगी एवं यथाशक्ति उनको वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता भी प्रदान करती रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण संबंधों में कटुता या तनाव आएगा परन्तु कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। साथ ही आप एक दूसरे से सहमत भी रहेंगे एवं विश्वास पूर्वक जीवन में परस्पर सहयोग का भाव रखेंगे।

बुध

तृतीयभाव में बुध हो तो जातक सद्गुणी, कार्यदक्ष, परिश्रमी, मित्रप्रेमी, भीरु, धर्मात्मा, यात्राशील, व्यवसायी, चंचल, अल्पभ्रातृवान्, विलासी, सन्ततिवान्, कवि, सम्पादक, सामुद्रिकशास्त्र का ज्ञाता एवं लेखक होता है।

सिंह राशि में बुध हो तो जातक मिथ्याभाषी, कुकर्म, ठग, कामुक, भ्रमणशील, अभिमानी, वक्ता, कम उम्र में विवाह, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं सरकारी नौकर होता है।

गुरु

अष्टमभाव में गुरु हो तो जातक दीर्घायु, नम्रव्यवहार, लेखक, सुखी, शान्त, मधुरभाषी, विवेकी, ग्रन्थकार, कुलदीपक, ज्योतिषप्रेमी, मित्रों द्वारा धननाशक, गुप्तरोगी एवं लोभी होता है।

मकर राशि में गुरु हो तो जातक प्रवासी, द्रव्यहीन, व्यर्थपरिश्रमी, चंचलचित्त, धूर्त, असभ्य आचरण, दुःखी एवं ईर्ष्यालु होता है।

शुक्र

तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक विद्वान्, कलाकार, आलसी, कृपण, धनी, सुखी, पराकमी, भाग्यवान्, बहने भाईयों से अधिक एवं पर्यटनशील होता है।

सिंह राशि में शुक्र हो तो जातक, अल्पसुखी उपकारी, चिन्तातुर, शिल्पज्ञ, स्त्रियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला, कामुक, आवेशपूर्ण एवं अपने को दूसरों से ऊँचा समझने वाला होता है।

शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान्, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्पयोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

मीन राशि में शनि हो तो जातक अविचारी, शिल्पकार हतोत्साही, धनी, प्रसिद्ध, सुखी एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है।

राहु

तृतीय भाव में राहु हो तो जातक योगाभ्यासी, विद्वान्, व्यवसायी, पराक्रमशून्य, दृढ़विवेकी, अरिष्टनाशक, प्रवासी, दीर्घायु एवं बलवान् होता है।

सिंह राशि में राहु हो तो जातक चतुर, विचारक, सज्जन, नीति दक्ष एवं सत्पुरुष होता है।

केतु

नवम भाव में केतु हो तो जातक सुखाभिलाषी, व्यर्थपरिश्रमी अपयशी, दुःखी एवं 48 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है।

कुम्भ राशि में केतु हो तो जातक दुःखी, कर्णरोगी, भ्रमणशील, व्ययशील एवं साधारण धनी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- बुध
(04/03/2021 - 04/03/2038)

बुध की महादशा 04/03/2021 को आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 04/03/2038 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध तृतीय भाव में स्थित है। बुध की दृष्टि नवम भाव पर है। इसके पहले आपकी 19 वर्ष की शनि दशा चल रही थी। उस दशा के दौरान कुछ मामूली वाधाओं को छोड़ जीविका में प्रगति तथा धन की प्राप्ति हुई होगी। बुध की वर्तमान दशा के दौरान आपकी छोटी यात्राएं होंगी तथा पराक्रम और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपमें शक्ति तथा स्फूर्ति प्रचुर मात्रा में होगी। फिर भी आप सतर्क होंगे और जरूरत से अधिक परिश्रम नहीं करेंगे। गले की समस्या, ब्रोंकाइटिस, स्नायविक समस्या तथा गठिया आदि बीमारियों को छोड़कर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किन्तु, आवश्यक उपाय कर इन व्याधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

आप अपने ही प्रयासों से धनोपार्जन करेंगे। आपको आर्थिक सफलता मिलेगी और आपको किसी लाभदायक सरकारी पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने शत्रुओं तथा विरोधियों से लाभ मिलेगा और मुकदमों में विजय मिलेगी। आपको संचार-माध्यमों के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जीविका-व्यवसाय के लिये लेखा, पत्रकारिता, सेल्समैन, शिक्षण, ट्रेवल एजेंट, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, वैमानिकी, चिकित्सक तथा सभी बौद्धिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़ा, रत्न, पुस्तक, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर, इस्तनिर्भित आदि वस्तुओं का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सफलता तथा सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा आप अपनी बौद्धिक उपलब्धि, समस्या-समाधान की क्षमता तथा कठिन परिश्रम के कारण पुरस्कृत किए जाएंगे। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी, आय और लाभ में वृद्धि होगी तथा यश और ख्याति की प्राप्ति होगी। कार्यों में सफलता और विरोधियों पर विजय के लिए यह दशा उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

चन्द्र की अन्तर्दशा में आपको जीवन का सुख मिलेगा। इस दशा के दौरान आपको वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। बुध की अन्तर्दशा में आप अपना पुराना वाहन बेच सकते हैं। बुध की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा तथा गुरु की अन्तर्दशा में लम्बी यात्रा से लाभ होगा। मंगल की अन्तर्दशा में जमीन-जायदाद के मामले लाभदायक होंगे जबकि बुध की अन्तर्दशा के दौरान कुछ मामूली नुकसान हो सकता है।

शिक्षा :

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा अति उत्तम होगी। आप उस दशा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस दशा के दौरान शिक्षा के माध्यम से आपको कुछ आर्थिक लाभ होगा। गणित, विज्ञान, विधि, ललितकला, संचार-माध्यम, पत्रकारिता, लेखन तथा साहित्य में आपकी रुचि हो सकती है। आप हस्तकला तथा वाक्पटुता में कुशल होंगे। आप तेज, कूटनीतिक, बहुमुखी एवं विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं।

परिवार :

आपके बच्चों के लिये समय समृद्धि-दायक रहेगा और उनके लाभ तथा सम्पत्ति में वृद्धि होगी। आपको उनसे सुख मिलेगा। आपके जीवन साथी की यात्रा होगी, विदेशी स्रोतों से लाभ मिलेगा तथा उनकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होगी। आपका आपके जीवन साथी के साथ सम्बन्ध बहुत अच्छा रहेगा। आपकी माता की कुछ यात्रा, व्यय तथा स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्या होगी जबकि आपके पिता को व्यापार में तथा साझेदार से लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई-बहनों को यश और ख्याति मिलेगी, उनकी शिक्षा उत्तम होगी और जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी जबकि बड़ों को सट्टे में सफलता तथा लाभ मिलेगा। आपका उनके साथ सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपके मित्रों की संख्या विशाल होगी। आप सामाजिक व लोकप्रिय होंगे।

अन्तर्दशा :

बुध की दशा में बुध की अन्तर्दशा में आपको संचार-माध्यम से लाभ और भाइयों से सुख मिलेगा जबकि केतु के कारण कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप व्यापार में लाभ और विवाद होगा जबकि सूर्य की अन्तर्दशा के कारण सट्टे से लाभ तथा बच्चों से सुख मिल सकता है। चन्द्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आराम मिलेगा जबकि मंगल की अन्तर्दशा में यश, ख्याति, शक्ति तथा अधिकार की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। राहु की अन्तर्दशा कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है जबकि बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप यात्रा होगी और समृद्धि की प्राप्ति होगी। शनि की अन्तर्दशा के दौरान जीवन-वृत्ति में उन्नति होगी तथा लाभ मिलेगा।

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

**अंतर्दशा :- बुध - शुक्र
(27/07/2024 - 28/05/2027)**

आपके लिए बुध की महादशा 04/03/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 10 मास होगी। आपके लिए यह 27/07/2024 को प्रारंभ होकर 28/05/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, शांति और समृद्धि का कारक है।

इस अवधि में आप स्वयं के प्रयास से सफल होंगे। छोटे भाई-बहनों से खुशी मिलेगी। बहुत से मित्र होंगे। उत्साह और ऊर्जा से युक्त रहेंगे। लघु, सुखद यात्राएं हो सकती हैं। कला, वाक्शक्ति, और सामान बेचने में दक्ष होंगे। सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। धन, संपदा से युक्त होंगे। परिवार से सुख मिलेगा। पिता से संबंध उत्तम रहेंगे। दान-धर्म में भाग ले सकते हैं। अध्ययन में सफलता मिलेगी।

आपके जीवनसाथी धनी बनेंगे। आपके पिता को साझेदारी से लाभ होगा, व्यापार में धनार्जन अच्छा होगा। माता धन की बचत करेंगी; शत्रुओं पर विजय होगी। आपके भाई-बहनों के लिए मनोरंजन, सुख, उच्चपद, धन, संतान से खुशी, निवेश से लाभ का संकेत है।

आपकी संतान सफल होगी, आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। अगर वे कार्यरत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, अच्छे मित्र होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो सफल रहेंगे, उच्चाधिकारियों से लाभ होगा, प्रसिद्धि मिलेगी। परामर्शदाताओं को स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्र और कान की मामूली व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें।

ॐ शुं शुक्राय नमः

**अंतर्दशा :- बुध - सूर्य
(28/05/2027 - 03/04/2028)**

आपके लिए बुध की महादशा 04/03/2021 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चौथी अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 28/05/2027 को प्रारंभ होकर 03/04/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आपका धनार्जन उत्तम रहेगा। रुके काम पूर्ण होंगे। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप पैसा सोच विचारकर खर्च करेंगे। मित्रों और संबंधियों से संबंध उत्तम रहेंगे। विरासत में धन मिल सकता है। जीवनसाथी के माध्यम से धन आ सकता है। अध्यात्म और पराविद्या में रुचि होगी।

आपके जीवनसाथी को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपके पिता को शत्रुओं और विरोधियों पर विजय मिलेगी। माता को आसानी से सफलता मिल जाएगी, उच्च पद प्राप्त होगा, सम्मान मिलेगा और धनार्जन उत्तम होगा। आपके भाई-बहनों को घरेलू सुख रहेगा। अचल संपत्ति क्रय करेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी।

आपकी संतान की प्रोन्नति होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो सौभाग्यशाली रहेंगे, यात्रा होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाता धन और उच्चपद प्राप्त करेंगे। व्यापारियों के काम में परिवर्तन होंगे, अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, अचानक धन आ सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्रों का ध्यान रखें। शुभत्व में वृद्धि के लिए गेहूं का दान करें।

**अंतर्दशा :- बुध - चन्द्र
(03/04/2028 - 02/09/2029)**

आपकी बुध की महादशा 04/03/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष 5 मास होगी। आपके लिए यह 03/04/2028 को प्रारंभ होकर 02/09/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, सरकारी कृपा और चेहरे की चमक का कारक है।

इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। रिश्तेदारों से संबंध मधुर होंगे। आप दूसरों की मदद करेंगे और सब सुखों का भोग करेंगे। उत्तम वस्त्र और भोजन उपलब्ध रहेंगे। कभी-कभी आप भावुक या उदास हो सकते हैं, इस प्रवृत्ति से बचना श्रेयस्कर होगा। छोटी बातों का बुरा मानना उचित नहीं है। कार्यक्षेत्र और समाज में सफलता मिलेगी। यात्राएं हो सकती हैं। सुख के साधन उपलब्ध रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को व्यापार में, विशेषकर तरल पदार्थ और स्त्रियों से संबंधित कार्य में लाभ होगा। आपके पिता का घरेलू जीवन प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। माता सफल होंगी ; प्रसिद्धि और धन प्राप्त करेंगी।

आपके भाई-बहनों के बहुत से मित्र होंगे; धन, उत्तम शिक्षा, संतान से खुशी, धनलाभ, सफलता का संकेत है।

आपकी संतान भाग्यशाली होगी, पिता से लाभ होगा, शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो लाभ, यात्रा, उच्चपद और धन का योग है।

अगर आप सेवारत हैं तो मिलजुल कर किये काम से लाभ होगा, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाता सौभाग्यशाली रहेंगे जबकि व्यापारियों को साझेदारी से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भावनात्मक व्याधियों से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए चावल, सफेद वस्त्र और दूध का दान करें।

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217

**अंतर्दशा :- बुध - मंगल
(02/09/2029 - 30/08/2030)**

आपके लिए बुध की महादशा 04/03/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन रहेगी। यह 02/09/2029 को प्रारंभ होकर 30/08/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपको वांछित वस्तुएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा उत्तम होगी। अचल संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। उत्साह और साहस में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्पर्धियों पर विजय होगी; उच्चपद मिल सकता है। विवाहित जीवन में तनाव हो सकता है पर प्रयास करने पर बचाव हो सकता है। व्यापार में विस्तार और साझेदारी से लाभ संभव हैं। व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है। विदेश में सफलता मिल सकती है।

आपके जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे, भाग्यशाली होंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; उन्हें विरासत में संपत्ति मिल सकती है। माता के आत्म-विश्वास में वृद्धि हो सकती है; सफलता, सौभाग्य और उत्तम कार्यक्षमता का योग है।

आपके भाई-बहनों के लिए लाभ, धन, प्रसिद्धि, उत्तम शिक्षा और स्पर्धियों पर विजय का संकेत है। आपकी संतान की सफलता में बाधाएं आ सकती हैं। अगर वे सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं मगर अध्यात्म में रुचि होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो आय में वृद्धि होगी; सफलता और प्रसिद्धि मिलेंगी। परामर्शदाताओं को साझेदारी से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। छाती और हृदय के रोगों से बचाव करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए मंगल के मंत्र का जाप करें।

ॐ अं अंगारकाय नमः

MANWENDRA SHARMA

Nepal Adhyatimk Jyotish Sansthan
9851036217, 9801136217